



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1939 (श0)

(सं0 पटना 103) पटना, मंगलवार, 6 फरवरी 2018

सं० AMRUT-21-03/2015-108  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी 2018

विषय :— केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना फेज-II की कुल प्राक्कलित राशि रू0 78255.636 लाख (सात अरब बयासी करोड़ पचपन लाख तिरसठ हजार छह सौ रू0 मात्र), बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड, पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की रू0 4894.99 लाख (अड़तालीस करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार रू0 मात्र) और इसी योजना के अधीन PDMC के रूप में M/s WAPCOS Ltd की नियुक्ति (तीन वर्ष के लिए) पर संभावित रू0 3691.03 लाख (छत्तीस करोड़ इक्यानवे लाख तीन हजार रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक-25 जून, 2015 को किया गया इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) 664.20 करोड़, SAAP-II 775.20 करोड़ एवं SAAP-III 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है। इसी क्रम में SAAP-III के अंतर्गत हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ, बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज-II, 1 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, 1 फिकल स्लज मैनेजमेंट योजना एवं 20 पार्क विकास योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

2. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत का फंडिंग पैटर्न:—

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन 10.00 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (पटना) के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई भारत सरकार द्वारा, 20% नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का

50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किश्त 20%, द्वितीय किश्त 40% एवं तृतीय किश्त 40% के रूप में विमुक्त किया जाएगा। प्रस्तावित 13 जलापूर्ति योजना में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में ₹0 21356.0298 लाख (दो सौ तेरह करोड़ छप्पन लाख दो हजार नौ सौ अस्सी ₹0 मात्र) एवं बेउर मोड़ से मिठापुर बस स्टैंड पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में ₹0 2284.329 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हजार नौ सौ ₹0 मात्र) का भार वहन किया जाना है। PDMC की नियुक्ति पर राज्य सरकार को कोई राशि नहीं देना है।

**3. योजना का उद्देश्य :-**विकास की गति को बनाये रखने तथा हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि ₹0 78255.636 लाख (सात अरब बयासी करोड़ पचपन लाख तिरैसठ हजार छह सौ ₹0 मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे राष्ट्रीय मानक के अनुसार वर्णित नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जाना है। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को अगले तीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

बेउर मोड़ से मिठापुर बस स्टैंड, पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के 8 वार्डों में आवासित लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराना है।

आयोजना, डिजाइन, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत निविदा प्रक्रिया के निष्पादनोपरांत M/s WAPCOS Ltd को PDMC के रूप में योग्य पाया गया है। तीन वर्षों के लिए M/s WAPCOS Ltd का कुल Financial Proposal 31,27,99,000.00 रुपये (GST रहित) का है, जिसमें Remuneration मद में 21,31,80,000.00 रुपये, Reimbussable expenses मद में 7,56,20,000.00 रुपये तथा Provisional Sum मद में 2,39,99,000.00 रुपये है। अनुमानित 18% GST सहित कुल प्राक्कलित राशि 36,91,02,820.00 रुपये है। PDMC में 13 Key Professional, 54 Support Professional एवं 20 Support Staff होंगे। इस योजना पर व्यय होनेवाले शत-प्रतिशत राशि का भार वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

#### 4. योजना के लिए आवश्यक निधि के स्रोत एवं अन्य उपबंध -

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना फेज-II के कार्यान्वयन हेतु परियोजना लागत का 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। इन सभी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद होगा। योजना के लिए प्रस्तावित राशि एवं इसके अन्तर्गत अवयवों की विवरणी निम्नवत है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि		केन्द्रांश की राशि 50% @ Column 3	राज्यांश की राशि 30% @ Column 3	ULB का अंशदान 20% @ Column 3 + 100% O&M कॉस्ट	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
		कैपिटल कॉस्ट	O&M कॉस्ट					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज-2	6934.42	681.74	3467.21	2080.326	2068.624	7616.16	8 Nos Tube wells, Rising main 1200M, OHR- 3 nos (5834KL), Distribution Pipe line-150555M, HH Con.-6902, SCADA-Yes
2	बगहा जलापूर्ति योजना फेज-2	6451.80	645.18	3225.90	1935.54	1935.54	7096.98	14 Nos Tube wells, Rising main 1400M, OHR- 5 nos (3393KL), Distribution Pipe line-112621M, HH Con.-10601, SCADA-Yes

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि		केन्द्रांश की राशि 50% @ Column 3	राज्यांश की राशि 30% @ Column 3	ULB का अंशदान 20% @ Column 3 + 100% O&M कॉस्ट	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
		कैपिटल कॉस्ट	O&M कॉस्ट					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-2	6532.938	649.17	3266.469	1959.881	1955.758	7182.108	9 Nos Tube wells, Rising main 1200M, OHR- 3 nos (3475KL), Distribution Pipe line-183146M, HH Con.-15741, SCADA-Yes
4	सिवान जलापूर्ति योजना फेज-2	6517.36	648.61	3258.68	1955.208	1952.082	7165.97	10 Nos Tube wells, Rising main 2850M, OHR- 3 nos (2650 KL), Distribution Pipe line-157516M, HH Con.-11804, SCADA-Yes
5	आरा जलापूर्ति योजना फेज-2	4865.13	484.55	2432.565	1459.539	1457.576	5349.68	8 Nos Tube wells, Rising main 4992M, OHR- 6 nos (4000 KL), Distribution Pipe line-78028M, HH Con.-10021, SCADA-Yes
6	बेगूसराय जलापूर्ति योजना फेज-2	5005.15	497.27	2502.575	1501.545	1498.30	5502.42	10 Nos Tube wells, Rising main 850M, OHR- 4 nos (3178 KL), Distribution Pipe line-87266M, HH Con.-18727, SCADA-Yes
7	किशनगंज जलापूर्ति योजना फेज-2	4512.43	451.243	2256.215	1353.729	1353.729	4963.673	10 Nos Tube wells, Rising main 1200M, OHR- 4 nos (2424 KL), Distribution Pipe line-113238M, HH Con.-6320, SCADA-Yes
8	कटिहार जलापूर्ति योजना फेज-2	4136.372	411.11	2068.186	1240.912	1238.384	4547.482	10 Nos Tube wells, Rising main 1200M, OHR- 4 nos (2948 KL), Distribution Pipe line-64961M, HH Con.-15340, SCADA-Yes
9	बक्सर जलापूर्ति योजना फेज-2	4427.736	438.677	2213.868	1328.3208	1324.2242	4866.413	10 Nos Tube wells, Rising main 1200M, OHR- 5 nos (3000 KL), Distribution Pipe line-86609M, HH Con.-8921, SCADA-Yes
10	सासाराम जलापूर्ति योजना फेज-2	2788.08	277.36	1394.04	836.424	834.976	3065.44	2 Nos Tube wells, Rising main 940M, OHR- 3 nos (3000 KL), Distribution Pipe line-58844M, HH Con.-6722, SCADA-Yes

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि		केन्द्रांश की राशि 50% @ Column 3	राज्यांश की राशि 30% @ Column 3	ULB का अंशदान 20% @ Column 3 + 100% O&M कॉस्ट	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
		कैपिटल कॉस्ट	O&M कॉस्ट					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	छपरा जलापूर्ति योजना फेज-2	6162.69	613.73	3081.345	1848.807	1846.268	6776.42	8 Nos Tube wells, Rising main 2500M, OHR- 5 nos (4850 KL), Distribution Pipe line-108360M, HH Con.-16161, SCADA-Yes
12	जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज-2	4065.58	393.71	2032.79	1219.674	1206.826	4459.29	14 Nos Tube wells, Rising main 550M, OHR- 0, Distribution Pipe line-84905M, HH Con.-4900, SCADA-Yes
13	बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना फेज-2	8787.08	876.52	4393.54	2636.124	2633.936	9663.60	23 Nos Tube wells, Rising main 10000M OHR- 9 nos (6800 KL Capacity), Distribution Pipe line-129291M, HH Con.-24000, SCADA-Yes
	कुल	71186.766	7068.87	35593.383	21356.0298	21306.2232	78255.636	

बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड, पटना-स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। इस योजना हेतु एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा, 20 प्रतिशत राशि पटना नगर निगम द्वारा एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि (प्राक्कलित राशि का 33.33%)	राज्यांश की राशि (प्राक्कलित राशि का 46.66%)	ULB का अंशदान (प्राक्कलित राशि का 20%)	अवयव
1	बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड-स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना	4894.99	1631.663	2284.329	978.998	Sump Capacity-2375KL. 12 nos Pump Lenth of Drains 7119M No of Wards covered - 8

5. यह एक नई योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी BRJP/नगर निकाय को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि State Nodal Agency, Bihar (BUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं SLNA को BRJP/नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। BRJP राज्य सरकार का एक उपक्रम है। यह योजना निर्माण कार्य से संबंधित है, जो SAAP-III में स्वीकृत है।

6. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 15.01.2018 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 01 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**अतः** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 103-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>